




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 139 ]  
No. 139 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1997 चैत्र, 12, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1997/CHAITRA 12, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

सं. 12/ 97-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा. का. नि. 193 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/ 97-सीमाशुल्क (एन.टी.) तारीख 10 मार्च, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित स्थानों को, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	(i) अनापर्थी (ii) चिराला (iii) हैदराबाद (iv) काकीनाड़ा (v) करेडु (vi) रेड्डीपालेम	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई निर्यात माल की लदाई निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	असम	अमीनगाँव (गुवाहाटी)	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
3.	दिल्ली	(i) पटपड़गंज (ii) तुगलकाबाद	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
4.	गुजरात	(i) अहमदाबाद (iii) बडौदा (iii) कपादरा (सूरत) (iv) साचिन (सूरत)	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
5.	हरियाणा	(i) बाबरपुर (ii) फरीदाबाद	निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
6.	कर्नाटक	बंगलौर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
7.	पंजाब	(i) अमृतसर (ii) भटिन्डा (iii) जालन्धर (iv) लुधियाना	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
8.	मध्य प्रदेश	(i) मालनपुर (ग्वालियर) (ii) पिथमपुर (iii) रायपुर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
9.	महाराष्ट्र	(i) जलगाँव (ii) नागपुर (iii) नासिक (iv) पिम्परी	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
10.	राजस्थान	(i) भीलवाड़ा (ii) जयपुर (iii) जोधपुर (iv) कोटा (v) उदयपुर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
11.	तमिलनाडु	(i) कोयम्बतूर (ii) सलेम (iii) सिंगनलूर (iv) तिरुपुर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई
12.	उत्तर प्रदेश	(i) आगरा (ii) कानपुर (iii) मेरठ (iv) पकवाड़ा (मुरादाबाद) (v) सहारनपुर (vi) वाराणसी	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई

**MINISTRY OF FINANCE****(DEPARTMENT OF REVENUE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 1997

**No. 12/97-CUSTOMS (N. T.)**

**G.S.R. 193 (E)** :— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/95-Customs (N.T.) dated the 10th March, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the places mentioned in column (3) of the Table below, situated in the state or, as the case may be, the Union Territory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, as Inland Container Depots, for purposes mentioned in column (4) of the said Table.

**TABLE**

S. No.	State/Union Territory	Places	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhra Pradesh	(i) Anaparthi	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Chirala	Loading of export goods
		(iii) Hyderabad	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Kakinada	Loading of export goods
		(v) Karedu	Loading of export goods
		(vi) Raddipalem	Unloading of imported goods and loading of export goods
2.	Assam	Amingaon (Gauhati)	Unloading of imported goods and loading of export goods
3.	Delhi	(i) Patparganj	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Tuglakabad	Unloading of imported goods and loading of export goods
4.	Gujrat	(i) Ahmedabad	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Baroda	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Kapadra (Surat)	Loading of export goods
		(iv) Sachin (Surat)	Unloading of imported goods and loading of export goods
5.	Haryana	(i) Babarpur	Loading of export goods
		(ii) Faridabad	Unloading of imported goods and loading of export goods
6.	Karnataka	Bangalore	Unloading of imported goods and loading of export goods
7.	Punjab	(i) Amritsar	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Bhatinda	Unloading of imported goods and loading of export goods

(1)	(2)	(3)	(4)
		(iii) Jalandhar	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Ludhiana	Unloading of imported goods and loading of export goods
8.	Madhya Pradesh	(i) Malanpur (Gwalior)	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Pithampur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Raipur	Unloading of imported goods and loading of export goods
9.	Maharashtra	(i) Jalgaon	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Nagpur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Nasik	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Pimpri	Unloading of imported goods and loading of export goods
10.	Rajasthan	(i) Bhilwara	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Jaipur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Jodhpur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Kota	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(v) Udaipur	Unloading of imported goods and loading of export goods
11.	Tamilnadu	(i) Coimbatore	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Salem	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Singnallur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Tirupur	Unloading of imported goods and loading of export goods
12.	Uttar Pradesh	(i) Agra	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(ii) Kanpur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iii) Meerut	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(iv) Pakwara (Moradabad)	Loading of export goods
		(v) Saharanpur	Unloading of imported goods and loading of export goods
		(vi) Varanasi	Unloading of imported goods and loading of export goods

[F.NO. 434/62/94-Cus. (IV)]

VIJAY KUMAR, Under secy.